



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1601]
No. 1601]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2008/कार्तिक 23, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2008/KARTIKA 23, 1930

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2008

का.आ. 2659(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में मुन्द्रा से पंचगढ़ राज्य में भठिण्डा तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिए एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड (गुरु गोविन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड की समनुषंगी) द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एफ. ए. बाबी, सक्षम प्राधिकारी, मुन्द्रा-भठिण्डा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन परियोजना, एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड, आदिपुर केम्प आफीस, प्लॉट नं. 186, वार्ड नं. 3-बी, ठागोर रोड, आदिपुर-370 205, कच्छ (गुजरात), को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्वधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुका : मुन्द्रा		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
4	5	6			
1	धव	दरिया व सर्वे नंबर 169 के बीच की भूमी	02	37	04
		169	00	05	02
2	मुन्द्रा	141/1	04	40	17
		141/50	00	06	98
		141/51	00	45	74
		156/2	00	11	52
3	बारोड़	244	00	53	26
		216	00	07	20
		207	01	07	06
		219	00	24	11
		218	00	64	34
		सर्वे नंबर 207 में मेटल्ड रास्ता	00	04	55
		165/1	00	05	15
		165/2	00	03	62
		163/1	00	14	23
		163/2	00	13	92
		161/1	00	09	89
		161/2	00	02	94
		161/4	00	00	30
		161/3	00	00	36
		161/5	00	07	66
		161/6	00	05	72
		161/7	00	00	36
		162	00	01	34
		सर्वे नंबर 161 व 170 के बीच में कार्ट ट्रैक	00	17	20
		170	00	04	63
		171/4	00	02	00
		155/1	00	01	14
		221	00	09	07
		244/2	00	05	29
		सर्वे नंबर 221 व गाँव सीमा के बीच में राज्य मार्ग	00	04	05
		130/1	00	02	71
		131/1	00	02	35
		131/2	00	04	66
		131/3	00	03	68
		131/4	00	03	39

तालुका : मुन्द्रा		जिला : कच्छ	राज्य : गुजरात		
क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे सँख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
3	बारोइ (जारी)	131/5	00	02	65
		131/6	00	02	80
		138	00	05	70
		139	00	04	28
		119	00	17	36
		136	00	00	50
		140/2	00	01	00
		142/1	00	02	00
4	गोवरसमा	गाँव सीमा व सर्वे नंबर 48/1 के बीच में राज्य मार्ग	00	01	42
		48/1	00	13	97
		48/2	00	12	43
		48/3	00	01	00
		11	00	11	58
		10	00	17	31
		52	00	02	00
		12/1	00	05	51
		12/2	00	04	94
		12/4	00	01	64
		12/5	00	04	20
		14/2	00	44	33
		16/1	00	04	37
5	शेखडीया	112	00	17	22
		110/2	00	04	64
		113	00	12	90
		114	00	10	50
		115/1	00	01	19
		116	00	06	25
		सर्वे नंबर 116 व 117/1 के बीच में कार्ट ट्रक	00	04	16
		117/1	00	06	17
		117/2	00	05	47
		118/1	00	04	36
		118/3	00	05	09
		सर्वे नंबर 118/3 व 2/2 के बीच में नाला	00	15	37
		2/2	00	07	50
		2/1	00	25	63
		3	00	09	42
		सर्वे नंबर 3 में दामर साता	00	06	88

तालुका : मुन्दा		जिला : कच्छ	राज्य : गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
5	शेखडीया (जारी)	सर्वे नंबर 3 व 4 के बीच में नाला	00	01	57
		4	00	11	05
		12/1	00	01	48
		12/2	00	02	42
		सर्वे नंबर 12/2 व 15/1 के बीच में नाला	00	06	98
		15/1	00	02	34
		16/2	00	03	52
		16/1	00	03	43
		सर्वे नंबर 16/1 व 17/1 के बीच में ओढ़ा	00	01	57
		17/1	00	05	38
		17/2	00	02	33
6	सडाऊ	34	00	02	36
		37/1	00	03	22
		43	00	12	43
		44	00	17	22
		45	00	16	88
		46	00	23	42
		47/2	00	01	91
		48	00	02	03
7	गुन्दाला	327/1	00	02	72
		327/2	00	09	98
		326	00	05	02
		324	00	15	55
		325	00	05	98
		322	00	06	38
		331	00	01	02
		332	00	14	90
		333	00	07	24
		317	00	26	41
		311	00	07	33
		312/1	00	02	40
		310	00	19	50
		309	00	11	32
		585/1	00	65	40
		585/13	00	26	87
		369/1	00	10	97
		सर्वे नंबर 369/1 में नाला	00	05	04
		368/1	00	05	87

तालिका : मुन्दा		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं.	गोंब का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
7	गुन्दाला (जारी)	370/1	00	26	92
		370/2	00	07	97
		371	00	12	12
		सर्वे नंबर 371 व 585/1 के बीच में नाला	00	02	80
		395/1	00	01	96
		393/2	00	12	66
		393/1	00	29	81
		सर्वे नंबर 585/1 में नाला	00	05	18
		376	00	26	80
		216	00	04	80
		215	00	33	37
		सर्वे नंबर 215 में ढामर रास्ता	00	09	37
		214	00	18	46
		सर्वे नंबर 214 व 213 के बीच में कार्ट ट्रक	00	05	46
		213	00	25	63
		212	00	00	60
		सर्वे नंबर 213 व 210/1 के बीच में कार्ट ट्रक	00	07	15
		210/1	00	14	72
		सर्वे नंबर 210/1 में ओढा	00	03	84
		210/3	00	00	68
		सर्वे नंबर 585/1 में लुनी नदी	00	10	43
		सर्वे नंबर 585/1 में मेटल्ड रास्ता	00	06	20
		189	00	09	94
		160	00	16	39
		159	00	13	28
		सर्वे नंबर 159 में ओढा	00	03	66
		154/1	00	03	00
		155	00	12	68
		156	00	00	58
8	राधा	14/1	00	05	71
		13	00	12	64
		12	00	12	73
		71	00	16	27
		सर्वे नंबर 71 में ओढा	00	01	48
		30	00	04	09
		सर्वे नंबर 71 व 27 के बीच में ओढा	00	07	19

तालुका : मुन्दा		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
8	राधा (जारी)	27	00	12	91
		28	00	04	49
9	मोखा	212	00	06	25
		211	00	03	65
		213	00	17	68
		219	00	00	55
		218	00	06	68
		214	00	10	90
		सर्वे नंबर 214 व 177/2 के बीच में ओडा	00	03	77
		177/2	00	00	30
		177/3	00	09	85
		सर्वे नंबर 177/3 व 176/1 के बीच में कार्ट ट्रक	00	00	25
		176/1	00	09	96
		172	00	12	94
		सर्वे नंबर 172 व 169 के बीच में कार्ट ट्रक	00	03	10
		171	00	23	41
		170	00	01	85
		सर्वे नंबर 170 व 243/2 के बीच में कार्ट ट्रक	00	08	71
		161/2	00	03	00
		243/2	00	10	19
		244	00	37	58
		246	00	12	47
		सर्वे नंबर 246 व 157 के बीच में कार्ट ट्रक	00	14	40
		157	00	23	36
		155	00	18	56
		154	00	18	74
		153/1	00	13	74
		153/2	00	00	49
		152	00	08	89
		150/2	00	04	42
		सर्वे नंबर 150/2 व 251 के बीच में राज्य मार्ग	00	13	85
		251	00	11	2
		253/2	00	08	38
		253/1	00	11	18
		254/1	00	14	27

तालिका 8 मुन्दा		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
9	मोखा (जारी)	254/2	00	13	54
		254/4	00	01	31
		259	00	08	81
		सर्वे नंबर 259 व गाँव सीमा के बीच में मिठी नदी	00	16	61
10	छसरा	325/2	00	10	98
		सर्वे नंबर 325/2 व 322/2 के बीच में नाला	00	18	84
		322/2	00	06	18
		323/1	00	21	43
		322/1	00	22	99
		320	00	17	90
		344	01	01	66
		271	00	10	60
		सर्वे नंबर 271 व 263/1 के बीच में कार्ट ट्रक	00	05	99
		263/1	00	08	83
		263/2	00	08	92
		सर्वे नंबर 263/2 व 131 के बीच में कार्ट ट्रक	00	04	63
		131	00	01	78
		133	00	19	14
		134	00	07	67
		136	00	02	22
		सर्वे नंबर 136 व 126 के बीच में कार्ट ट्रक	00	03	31
		126	00	03	00
		125/1	00	14	53
		सर्वे नंबर 125/1 व 121 के बीच में कनाल	00	09	47
		121	00	13	86
		122/1	00	05	66
		122/2	00	03	41
		119	00	34	00
		123	00	03	00
		106	00	60	02
		107	00	00	32
		सर्वे नंबर 344 व 104 के बीच में डामर रास्ता	00	08	72
		104	00	42	26

तालुका : मुन्द्रा		जिला: कच्छ	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
10	छसरा (जारी)	103	00	00	25
		102	00	22	98
		101	00	05	69
		100	00	12	90
		सर्वे नंबर 100 व 95 के बीच में ओढा	00	05	33
		95	00	00	72
		सर्वे नंबर 95 में नाला	00	01	86
		96	00	02	23
		93	00	03	00
		92	00	12	05
		सर्वे नंबर 344 में ओढा	00	61	73

[फा. सं. आर-31015/29/2008-ओआर-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2008

S.O. 2659(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil from Mundra in the State of Gujarat to Bathinda in the State of Punjab, a pipeline should be laid by HPCL - Mittal Pipelines Limited, (a subsidiary of Guru Gobind Singh Refineries Limited);

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date, on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri F. A. Babi, Competent Authority, Mundra Bathinda Crude Oil Pipeline Project,

HPCL - Mittal Pipelines Limited, Adipur Camp Office, Plot no-186, Ward No. 3-B, Tagore Road, Adipur - 370 205, Kutch (Gujarat).

HPCL - Mittal Pipelines Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to

SCHEDULE

SCHEDULE					
Taluka : MUNDRA		District : KUTCH		State : GUJARAT	
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	DHRAB	Area in between Sea and Survey number 189	02	37	04
		169	00	05	02
2	MUNDRA	141/1	04	40	17
		141/50	00	06	98
		141/51	00	45	74
		156/2	00	11	52
3	BAROI	244	00	53	26
		216	00	07	20
		207	01	07	06
		219	00	24	11
		218	00	64	34
		Metalled Road in Survey Number 207	00	04	55
		165/1	00	05	15
		165/2	00	03	62
		163/1	00	14	23
		163/2	00	13	92
		161/1	00	09	89
		161/2	00	02	94
		161/4	00	00	30
		161/3	00	00	36
		161/5	00	07	66
		161/6	00	05	72
		161/7	00	00	36
		162	00	01	34
		Cart Track in between Survey Number 161 and 170	00	17	20
		170	00	04	63
		171/4	00	02	00
		155/1	00	01	14
		221	00	09	07
		244/2	00	05	29
		State Highway in between Survey Number 221 and Village Boundary	00	04	05
		130/1	00	02	71
		131/1	00	02	35
		131/2	00	04	66
		131/3	00	03	68
		131/4	00	03	39

Taluka : MUNDRA					
District : KUTCH					
State : GUJARAT					
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
3	BAROI (Contd.)	131/5	00	02	65
		131/6	00	02	80
		138	00	05	70
		139	00	04	28
		119	00	17	36
		136	00	00	50
		140/2	00	01	00
		142/1	00	02	00
4	GOVARSAMA	State Highway in between Village Boundary and Survey number 48/1	00	01	42
		48/1	00	13	97
		48/2	00	12	43
		48/3	00	01	00
		11	00	11	58
		10	00	17	31
		52	00	02	00
		12/1	00	05	51
		12/2	00	04	94
		12/4	00	01	64
		12/5	00	04	20
		14/2	00	44	33
		16/1	00	04	37
5	SHEKHADIA	112	00	17	22
		110/2	00	04	64
		113	00	12	90
		114	00	10	50
		115/1	00	01	19
		116	00	06	25
		Cart track in between Survey number 116 and 117/1	00	04	16
		117/1	00	06	17
		117/2	00	05	47
		118/1	00	04	36
		118/3	00	05	09
		Nala in between Survey number 118/3 and 2/2	00	15	37
		2/2	00	07	50
		2/1	00	25	63
		3	00	09	42
		Asphalted Road in Survey number 3	00	06	88

Taluka : MUNDRA		District : KUTCH		State : GUJARAT	
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
5	SHEKHADIA (Contd.)	Nala in between Survey number 3 and 4	00	01	57
		4	00	11	05
		12/1	00	01	48
		12/2	00	02	42
		Stream in between Survey number 12/2 and 15/1	00	06	98
		15/1	00	02	34
		16/2	00	03	52
		16/1	00	03	43
		Stream in between Survey number 16/1 and 17/1	00	01	57
		17/1	00	05	38
		17/2	00	02	33
6	SADAU	34	00	02	36
		37/1	00	03	22
		43	00	12	43
		44	00	17	22
		45	00	16	88
		46	00	23	42
		47/2	00	01	91
		48	00	02	03
7	GUNDALA	327/1	00	02	72
		327/2	00	09	98
		326	00	05	02
		324	00	15	55
		325	00	05	98
		322	00	06	38
		331	00	01	02
		332	00	14	90
		333	00	07	24
		317	00	26	41
		311	00	07	33
		312/1	00	02	40
		310	00	19	50
		309	00	11	32
		585/1	00	65	40
		585/13	00	26	87
		369/1	00	10	97
		Nala in Survey number 369/1	00	05	04
		368/1	00	05	87

Taluka : MUNDRA		District : KUTCH		State : GUJARAT			
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area				
			Hectare	Are	Sq.mtr.		
1	2	3	4	5	6		
7	GUNDALA (Contd.)	370/1	00	26	92		
		370/2	00	07	97		
		371	00	12	12		
		Nala in between Survey number 371 and 585/1	00	02	80		
		395/1	00	01	96		
		393/2	00	12	66		
		393/1	00	29	81		
		Nala in Survey number 585/1	00	05	18		
		376	00	26	80		
		216	00	04	80		
		215	00	33	37		
		Asphalted Road in Survey number 215	00	09	37		
		214	00	18	46		
		Cart Track in between Survey number 214 and 213	00	05	46		
		213	00	25	63		
		212	00	00	60		
		Cart Track in between Survey number 213 and 210/1	00	07	15		
		210/1	00	14	72		
		Stream in Survey number 210/1	00	03	84		
		210/3	00	00	68		
		Luni River in Survey number 585/1	00	10	43		
		Metalled Road in Survey number 585/1	00	06	20		
		189	00	09	94		
		160	00	16	39		
		159	00	13	28		
		Stream in Survey number 159	00	03	66		
		154/1	00	03	00		
		155	00	12	68		
		156	00	00	58		
		8	RAGHA	14/1	00	05	71
				13	00	12	64
				12	00	12	73
71	00			16	27		
Stream in Survey number 71	00			01	48		
30	00			04	09		
Stream in between Survey number 71 and 27	00			07	19		

Taluka : MUNDRA		District : KUTCH		State : GUJARAT	
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
8	RAGHA (Contd.)	27	00	12	91
		28	00	04	49
9	MOKHA	212	00	06	25
		211	00	03	65
		213	00	17	68
		219	00	00	55
		218	00	06	68
		214	00	10	90
		Stream in between Survey number 214 and 177/2	00	03	77
		177/2	00	00	30
		177/3	00	09	85
		Cart track in between Survey number 177/3 and 176/1	00	00	25
		176/1	00	09	96
		172	00	12	94
		Cart track in between Survey number 172 and 169	00	03	10
		171	00	23	41
		170	00	01	85
		Cart track in between Survey number 170 and 243/2	00	08	71
		161/2	00	03	00
		243/2	00	10	19
		244	00	37	58
		246	00	12	47
		Cart track in between Survey number 246 and 157	00	14	40
		157	00	23	36
		155	00	18	56
		154	00	18	74
		153/1	00	13	74
		153/2	00	00	49
		152	00	08	89
		150/2	00	04	42
		State Highway 46 in between Survey number 150/2 and 251	00	13	85
		251	00	11	2
		253/2	00	08	38
		253/1	00	11	18
		254/1	00	14	27

Taluka : MUNDRA		District : KUTCH	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
9	MOKHA (Contd.)	254/2	00	13	54
		254/4	00	01	31
		259	00	08	81
		Mitti River in between Survey number 259 and Village Boundary	00	16	61
10	CHHASRA	325/2	00	10	98
		Nala in between Survey number 325/2 and 322/2	00	18	84
		322/2	00	06	18
		323/1	00	21	43
		322/1	00	22	99
		320	00	17	90
		344	01	01	66
		271	00	10	60
		Cart track in between Survey number 271 and 263/1	00	05	99
		263/1	00	08	83
		263/2	00	08	92
		Cart track in between Survey number 263/2 and 131.	00	04	63
		131	00	01	78
		133	00	19	14
		134	00	07	67
		136	00	02	22
		Cart track in between Survey number 136 and 126	00	03	31
		126	00	03	00
		125/1	00	14	53
		Canal in between Survey number 125/1 and 121	00	09	47
		121	00	13	86
		122/1	00	05	66
		122/2	00	03	41
		119	00	34	00
		123	00	03	00
		106	00	60	02
		107	00	00	32
		Asphalted Road in between Survey number 344 and 104	00	08	72
		104	00	42	26

Taluka : MUNDRA		District : KUTCH		State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area			
			Hectare	Are	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	
10	CHHASRA (Contd.)	103	00	00	25	
		102	00	22	98	
		101	00	05	69	
		100	00	12	90	
		Stream in between Survey number 100 and 95	00	05	33	
		95	00	00	72	
		Nala in Survey number 95	00	01	86	
		96	00	02	23	
		93	00	03	00	
		92	00	12	05	
		Stream in Survey number 344	00	01	73	

[F. No. R-31015/29/2008-OR-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.